



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आषाढ़ 1940 (श0)

(सं० पटना 651) पटना, बुधवार, 11 जुलाई 2018

सं० 22/वि०प्र०स०-01/2018-9091/ सा०प्र०

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

10 जुलाई 2018

**विषय :-** कृषि उत्पादन आयुक्त की अनुपस्थिति में विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त द्वारा किये जाने के संबंध में।

राज्य सेवाओं/संवर्गों के वैसे पदों, जिनपर नियुक्ति/ प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के परामर्श एवं सहमति की आवश्यकता नहीं है, पर कर्मियों की नियुक्ति/ प्रोन्नति के निमित्त चयन/अनुशंसा करने हेतु तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के संकल्प सं० 2653 दिनांक 28.02.1989 के द्वारा "विभागीय प्रोन्नति समिति" का गठन किया गया है। संकल्प के परिशिष्ट-"ग" के तहत राज्य सरकार के विभागों को उनकी कार्य प्रकृति के अनुसार चार समूहों में विभक्त करते हुए प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग विभागीय प्रोन्नति समिति गठित की गई है। प्रत्येक समूह के लिए समिति की अध्यक्षता का दायित्व मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्तरीय पदाधिकारियों को दिया गया है। समूह "ग" के विभागों (विकासात्मक विभाग) के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता का दायित्व कृषि उत्पादन आयुक्त को दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कृषि उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त रहने अथवा उपार्जित/लम्बी अवधि तक अवकाश की स्थिति में प्रोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

2. अतः उपर्युक्त परिस्थिति के निराकरण हेतु समुचित विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि कृषि उत्पादन आयुक्त का पद रिक्त रहने अथवा उपार्जित/लम्बी अवधि तक अवकाश की स्थिति में समूह "ग" के विभागों के लिए गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त द्वारा की जायेगी। कृपया भविष्य में तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र राम,

सरकार के अपर सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 651-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>